

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 18
No. 149]	DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939	[N.C.T.D. No. 18

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अप्रैल, 2017

सं.फा.एसईसी/दि.न.नि./सा.चुना./2017/650.—आयोग की अधिसूचना संख्या सं.फा एसईसी/दि.न.नि./सा.चुना./2017/6205 दिनांक: 16 फरवरी, 2017 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा यथा संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7ख के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के अनुसरण में, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से नीचे तालिका के कॉलम संख्या-3 में दर्शाये गये अधिकारी को उनके सामने कॉलम-4 में दर्शाये गये दक्षिण दिल्ली नगर निगम के वार्डों के लिये मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ। मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त यह अधिकारी दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियमावली, नियम 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आगामी आम चुनावों के लिए उनके सामने दर्शाये गये वार्डों के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं संमीक्षा अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किए जाते हैं।

तालिका

दक्षिण दिल्ली नगर निगम

वार्ड नम्बर	वार्ड का नाम	पिछली प्रविष्टि	स्थानापन्न संशोधित प्रविष्टि
1	2	3	4
25-द	मोहन गार्डन-दक्षिण	श्री प्रांजल जे. हजारिका	श्री नीरज गुप्ता
26-द	मोहन गार्डन-उत्तर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (दक्षिण पश्चिम),	सहायक-आयुक्त, (आबकारी)
27-द	नवादा	जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण पश्चिम),	आबकारी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
28-द	उत्तम नगर	पुराना टर्मिनल कर इमारत, कापसहेड़ा, दिल्ली-110037.	सरकार, एल-ब्लाक, विकास भवन, आई.पी. ईस्टेट,
29-द	बिंदापुर		नई दिल्ली-110002

संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th April, 2017

No: F./SEC/MCD/General Election/2017/650.—In partial modification of the Commission's Notification No. F./SEC/MCD/General Election/2017/6205 dated 16.02.2017. I, S. K. Srivastava, State Election Commissioner in pursuance of the powers conferred under section 7B of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, and under the provision of Rule 7 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, hereby appoint, in consultation with Govt. of NCT of Delhi, the officer shown in column No. 4 of the table below, as Electoral Registration officer for the wards of North Delhi Municipal Corporation of Delhi, shown in column No. 4 against. The Officer so appointed as Electoral Registration officer is also appointed as a Returning officer-cum-Scrutinizing officer for the words shown against each, under the aforesaid Rules, in connection with the forthcoming General Election to North Delhi Municipal corporation as under:-

TABLE
North Delhi Municipal Corporation

Ward No	Ward Name	Previous entry	Substitute Revised entry
1	2	3	4
025-S	MOHAN GARDEN-SOUTH	Sh. Pranjal J. Hazarika Additional District Magistrate, (South West), Office of the District Magistrate (South West), Old Terminal Tax Building, Kapashera, Delhi-110037.	Sh. Neeraj Gupta Assistant Commissioner (Excise), Department of Excise, Govt. of NCT. of Delhi, L - Block, Vikas Bhawan, I.P Estate, New Delhi-110002..
026-S	MOHAN GARDEN-NORTH		
027-S	NAWADA		
028-S	UTTAM NAGAR		
029-S	BINDAPUR		

S.K. SRIVASTAVA, State Election Commissioner